

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 1970/अग्राहायण 19, 1892

No. 205] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 1970/AGRAHAYANA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December 1970

G.S.R. 2008.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (1st Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 1st January, 1971.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 2, after clause (yy), the following clauses shall be inserted, namely:—

(zz) Long distance charging area (LDCA) means one of the several areas in which the country is divided by the Telegraph Authority and declared as such for the purpose of charging for trunk calls;

(ab) Long distance charging centre (LDCC) means a particular Trunk Exchange in a Long Distance Charging Area declared as such by the Telegraph Authority for the purpose of charging for long distance calls.

3. In rule 451 of the said rules, for Section A, the following Section shall be substituted, namely:—

A: The charges for trunk calls between two stations situated in the same Long Distance Charging Area or in two contiguous charging areas shall be determined by the radial distance between the respective trunk exchanges and for trunk calls between two stations situated in non-contiguous Long Distance Charging Areas, by the radial distance between the respective Long Distance Charging Centres.

The charges for Unit call of ordinary category shall be calculated as follows:—  
Radial distance between any two exchanges or between any two Long Distance Charging Centres.

Up to 20 Kilometers .....	0.50
Exceeding 20 Kms but not exceeding 50 Kms.	1.00
" 50 " " " 100 "	2.00
" 100 " " " 200 "	3.00
" 200 " " " 300 "	5.00
" 300 " " " 500 "	8.00
" 500 " " " 900 "	12.00
" 900 " " " 1300 "	16.00

[No. 21-11/68-PHT.]

N. V. SHENOI,

Senior Member (T.O)

P&T Board and Ex. officio Additional Secy.

संचार विभाग  
(वाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना 1

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर 1970

सा० का० नि० 2008:—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारतीय तार नियम, 1951 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।  
(2) ये पहली जनवरी, 1971, को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 में, खण्ड (म म) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

(यय) सुदूर प्रसारण क्षेत्र (सु० प्र० क्षेत्र) से उन अनेक ऐसे क्षेत्रों में से कोई अधिप्रेत है जिनमें देश तार प्राधिकरण द्वारा विभाजित किया गया है और जो ट्रंक कालों के प्रसारण के प्रयोजन के लिए इस रूप में घोषित है ;

(क ख) सुदूर प्रसारण क्षेत्र (सु० प्र० क्षेत्र) से तार प्राधिकरण द्वारा सुदूर कालों के प्रसारण के प्रयोजन के लिए, ऐसे घोषित सुदूर प्रसारण क्षेत्र में कोई विशिष्ट ट्रंक एक्सचेंज अधिप्रेत है।

3. उक्त नियम के नियम 451 में, अनुभाग क के स्थान पर निम्नलिखित अनुभाग प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क. एक ही सुदूर प्रभारण क्षेत्र में या आपस में लगे हुए दो प्रभारण क्षेत्रों में स्थित दो स्टेशनों के बीच ट्रंक लाइन के लिए प्रभार लाइन ट्रंक एक्सचेंजों के बीच की शरीय दूरी के अनुसार तथा आपस में लगे हुए सुदूर प्रभारण क्षेत्रों में स्थित दो स्टेशनों के बीच ट्रंक लाइन के लिए उनकी सुदूर प्रभारण केन्द्रों के बीच की शरीय दूरी के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

साधारण कोटि की यनिट काल के लिए प्रभार निम्नलिखित प्रकार से संगणित किया जाएगा :—

किन्हीं दो एक्सचेंजों के बीच या किन्हीं दो दूरवर्ती प्रभारण केन्द्रों के बीच शरीय दूरी	प्रभार ५० पै०
20 किलोमीटर तक	0.50
20 किलोमीटर से अधिक किन्तु	1.00
50 किलोमीटर से अनधिक	
50 किलोमीटर से अधिक किन्तु	2.00
100 किलोमीटर से अनधिक	
100 किलोमीटर से अधिक किन्तु	3.00
200 किलोमीटर से अनधिक	
200 किलोमीटर से अधिक किन्तु	5.00
500 किलोमीटर से अनधिक	
500 किलोमीटर से अधिक किन्तु	8.00
900 किलोमीटर से अनधिक	
900 किलोमीटर से अधिक किन्तु	12.00
1300 किलोमीटर से अनधिक	
1300 किलोमीटर से अधिक	16.00

[सं० 21-11/68-पी० एच० टी०]

एन० बी० शेणाय,

प्रौर पदेन अतिरिक्त सचिव।

**MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS****(Department of Petroleum)****CORRIGENDUM**

In the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals Order No. F. 1/30/70-PPD (Issue No. 101), dated the 1st June 1970 published as G.S.R. 864 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), on page 517 in the 3rd line of the said Order for the figure "1956" read "1966".